

दिल की
बात कहना
सही है



गले लगाने की
चाहत हो तो
भी सही है



रो लेना
सही है



दूसरों से
मदद मांगना
सही है



खुद को आराम
देने के लिए समय
निकालना सही है



अपने तरीके
से अपने कार्य करते
रहना सही है

